



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 14—दिसम्बर 20, 2019 (अग्रहायण 23, 1941)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 14—DECEMBER 20, 2019 (AGRAHAYANA 23, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	595	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1413	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	11	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3065	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 6929
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 375
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 2349
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक..... *

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	595	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	1413	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	11	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	3065	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	6929
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	375
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	2349
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

**भाग I—खण्ड 1****[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 नवम्बर 2019

सं. 1/1/2016/2019-पीडी—सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के प्रयोजनार्थ, भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सोसाइटी का दिनांक 06 नवम्बर, 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया है तथा इसमें निम्नांकित सम्मिलित होंगे:—

क्र.सं.	नाम, पदनाम तथा पता	सीएसआईआर के नियमों एवं विनियमों के अनुसार सीएसआईआर सोसाइटी में पद
01	भारत के माननीय प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक नई दिल्ली-110011	अध्यक्ष (पदेन) नियम-3 (क)
02	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) उपाध्यक्ष, सीएसआईआर उपाध्यक्ष, सीएसआईआर कार्यालय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001	उपाध्यक्ष (पदेन) नियम-3 (ख)
03	वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली-110001	सदस्य (पदेन) नियम-3 (ग)
04	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उद्योग भवन नई दिल्ली-110011	सदस्य (पदेन) नियम-3 (ग)
05	प्रो. के. विजयराघवन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और अध्यक्ष, मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति	सदस्य (पदेन) नियम-3 (ड.)

क्र.सं.	नाम, पदनाम तथा पता	सीएसआईआर के नियमों एवं विनियमों के अनुसार सीएसआईआर सोसाइटी में पद
	तथा अध्यक्ष, सलाहकार बोर्ड, सीएसआईआर विज्ञान भवन एनेक्सी लाना आजाद मार्ग नई दिल्ली-110003	
06	सचिव (डॉ. रेणु स्वरूप) जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ब्लॉक-2, 7वां तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली-110003	सदस्य नियम-3 (च)
07	सचिव (डॉ. त्रिलोचन मोहपात्रा) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कृषि भवन नई दिल्ली-110001	सदस्य नियम-3 (च)
08	सचिव (श्री सुभाष चंद्र) रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय 136, साउथ ब्लॉक नई दिल्ली-110011	सदस्य नियम-3 (च)
09	सचिव (प्रो. बलराम भार्गव) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दूसरा तल, आईआरसीएस बिल्डिंग 1, रेड क्रॉस रोड नई दिल्ली-110001	सदस्य नियम-3 (च)
10	सचिव (डॉ. माधवन नायर राजीवन) पृथ्वी विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी भवन इंडिया हैबिटेड सेंटर के सामने लोधी रोड नई दिल्ली-110003	सदस्य नियम-3 (च)
11	सचिव (डॉ. कैलासवादिवू सिवन)	सदस्य नियम-3 (च)

क्र.सं.	नाम, पदनाम तथा पता	सीएसआईआर के नियमों एवं विनियमों के अनुसार सीएसआईआर सोसाइटी में पद
	अंतरिक्ष विभाग और अध्यक्ष, अंतरिक्ष आयोग तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतरिक्ष भवन न्यू बीईएल रोड बेंगलुरु-560231 (कर्नाटक)	
12	सचिव (श्री आर. सुब्रह्मण्यम) उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय 127-सी, शास्त्री भवन नई दिल्ली-110001	सदस्य नियम-3 (च)
13	सचिव (श्री के. एन. व्यास) परमाणु ऊर्जा विभाग और अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग अणुशक्ति भवन सीएसएम मार्ग मुंबई-400001 (महाराष्ट्र)	सदस्य नियम-3 (च)
14	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डॉ. नलिन सिंघल) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) बीएचईल हाउस, सीरी फोर्ट नई दिल्ली-110049	सदस्य नियम-3 (च)
15	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डॉ. आशुतोष कर्नाटक) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) 16, भीकाजी कामा प्लेस आर.के. पुरम नई दिल्ली-110066	सदस्य नियम-3 (च)
16	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (श्री आर. माधवन) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) एचएएल कॉर्पोरेट कार्यालय 15/1, कब्बन रोड बेंगलुरु-560001 (कर्नाटक)	सदस्य नियम-3 (च)
17	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (श्री गुरदीप सिंह) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी भवन स्कोप परिसर	सदस्य नियम-3 (च)

क्र.सं.	नाम, पदनाम तथा पता	सीएसआईआर के नियमों एवं विनियमों के अनुसार सीएसआईआर सोसाइटी में पद
	इंस्टिट्यूशनल एरिया लोधी रोड नई दिल्ली-110003	
18	प्रो. भास्कर रामामूर्ति निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास आईआईटी पोस्ट ऑफिस चेन्नई-600036 (तमिलनाडु)	सदस्य नियम-3 (च)
19	श्री नटराजन चंद्रशेखरन अध्यक्ष टाटा संस बॉम्बे हाउस 24, होमी मोदी स्ट्रीट मुंबई-400001 (महाराष्ट्र)	सदस्य नियम-3 (च)
20	श्री बाबा ए. कल्याणी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कल्याणी समूह भारत फोर्ज लिमिटेड मुंढवा पुणे-411036 (महाराष्ट्र)	सदस्य नियम-3 (च)
21	सुश्री निवरुती राय कंट्री हैड, इंटेल इंडिया और उपाध्यक्ष, डाटा सेंटर समूह इंटेल कॉर्पोरेशन बेंगलुरु-560037 (कर्नाटक)	सदस्य नियम-3 (च)
22	प्रो. शर्मिष्ठा बनर्जी प्रोफेसर जैव रसायन विभाग स्कूल ऑफ लाइफ साइंस हैदराबाद विश्वविद्यालय गाचीबोवली हैदराबाद-500046 (तेलंगाना)	सदस्य नियम-3 (च)
23	डॉ. रशना भंडारी प्रोफेसर और प्रमुख सेल सिग्नलिंग लैबोरेट्री डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र (सीडीएफडी) इनर रिंग रोड, उप्पल हैदराबाद-500039 (तेलंगाना)	सदस्य नियम-3 (च)
24	प्रो. अजय कुमार सूद मानद प्रोफेसर	सदस्य

क्र.सं.	नाम, पदनाम तथा पता	सीएसआईआर के नियमों एवं विनियमों के अनुसार सीएसआईआर सोसाइटी में पद
	भौतिकी विभाग भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु-560012 (कर्नाटक)	नियम-3 (च)
25	प्रो. उमेश वासुदेव वाघमारे प्रोफेसर थ्योरिटिकल साइंस यूनिट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएसआर) बेंगलुरु-560064 (कर्नाटक)	सदस्य नियम-3 (च)
26	प्रो. सुधीर के. जैन निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पालज गांधीनगर-382355 (गुजरात)	सदस्य नियम-3 (च)
27	सुश्री चंदा निम्बकर निदेशक पशुपालन प्रभाग निंबकर कृषि अनुसंधान संस्थान पो. ऑ. बॉक्स 23 फलटन-415523 (महाराष्ट्र)	सदस्य नियम-3 (च)
28	डॉ. मधु दीक्षित राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (टीएचएसटीआई) एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर, तृतीय माइलस्टोन फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)	सदस्य नियम-3 (च)
29	प्रो. संघमित्रा बंद्योपाध्याय प्रोफेसर, मशीन इंटेलिजेंस यूनिट और निदेशक भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) 203, बीटी रोड कोलकाता-700108 (पश्चिम बंगाल)	सदस्य नियम-3 (च)
30	श्री ए. एस. किरण कुमार पूर्व अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और सचिव अंतरिक्ष विभाग एस.वी. रोड, बांद्रा (पश्चिम) मुंबई-400050 (महाराष्ट्र)	सदस्य नियम-3 (च)
31	प्रो. संदीप त्रिवेदी निदेशक टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर) होमी भाभा रोड, नेवी नगर	सदस्य नियम-3 (च)

क्र.सं.	नाम, पदनाम तथा पता	सीएसआईआर के नियमों एवं विनियमों के अनुसार सीएसआईआर सोसाइटी में पद
	कोलाबा मुंबई-400005 (महाराष्ट्र)	
32	डॉ. चेतन चिटनिस प्रमुख मलेरिया पैरासाइट बायोलॉजी एंड वैक्सीन यूनिट इंस्टिट्यूट पास्टियर रू डू डॉक्टियर रॉक्स पेरिस, फ्रांस	सदस्य नियम-3 (च)

सीएसआईआर के नियमों एवं विनियमों के नियम 3 (घ) के अनुसार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी निकाय के निम्नवत् सदस्य, जिस अवधि तक वे शासी निकाय के सदस्य हैं, सीएसआईआर सोसाइटी के भी सदस्य रहेंगे:—

क्र.सं.	नाम, पदनाम और पता	सीएसआईआर के नियमों एवं विनियमों के अनुसार सीएसआईआर के शासी निकाय में पद
33	महानिदेशक (डॉ. शेखर चि. मांडे) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अनुसंधान भवन 2, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001	अध्यक्ष, शासी निकाय, सीएसआईआर (पदेन)
34	सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली-110001	सदस्य-वित्त (पदेन)
35	डॉ. राम ए. विश्वकर्मा निदेशक सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान (आईआईआईएम) कैनाल रोड, जम्मू-180001 (जम्मू और कश्मीर)	सदस्य
36	डॉ. राकेश के. मिश्रा निदेशक सीएसआईआर-कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केन्द्र (सीसीएमबी) उप्पल रोड हैदराबाद-560007 (तेलंगाना)	सदस्य
37	श्री दिलीप शांघवी प्रबंध निदेशक सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड सन हाउस, सीटीएस नंबर 201-बी/1 वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (ई) मुंबई-400063 (महाराष्ट्र)	सदस्य



क्र.सं.	नाम, पदनाम और पता	सीएसआईआर के नियमों एवं विनियमों के अनुसार सीएसआईआर के शासी निकाय में पद
38	श्री दिनेश के. सराफ अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड नई दिल्ली-110070	सदस्य
39	प्रो. एम.आर. सत्यनारायण राव प्रोफेसर क्रोमैटिन बायोलॉजी लैबोरेट्री मॉलिक्युलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट (एमजीबीयू) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएसआर), जक्कुर बेंगलुरु-560064 (कर्नाटक)	सदस्य
40	प्रो. श्रीकुमार बनर्जी होमी भाभा अध्यक्ष प्रोफेसर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) और (कुलाधिपति, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर) अणुशक्ति नगर मुंबई-400094 (महाराष्ट्र)	सदस्य
41	डॉ. अरुण कुमार ग़ोवर मानद एमेरिटस प्रोफेसर अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (सम विश्वविद्यालय) सेक्टर-12 चंडीगढ़-160012	सदस्य
42	सचिव (प्रो. आशुतोष शर्मा) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग टेक्नोलॉजी भवन न्यू महरौली रोड नई दिल्ली-110016	सदस्य
43	सचिव (डॉ. जी. सतीश रेड्डी) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (डीडीआरडी) और अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली-110001	सदस्य

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH  
(COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110001, the 6th November 2019

No. 1/1/2016/2019-PD—It is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the Council of Scientific & Industrial Research Society has been reconstituted with effect from 06th November 2019 for a period of three years by the Government of India and shall consist of the following:—

Sl. No.	Name; Designation and Address	Position in CSIR Society as per CSIR Rules and Regulations
01	Hon'ble Prime Minister of India (Shri Narendra Modi) Prime Minister's Office South Block New Delhi-110011	President (ex- officio) Rule- 3 (a)
02	Minister of Science and Technology (Dr. Harsh Vardhan) Vice-President, CSIR Office of the VP, CSIR Council of Scientific & Industrial Research Anusandhan Bhawan 2, Rafi Marg New Delhi-110001	Vice- President (ex- officio) Rule- 3 (b)
03	Minister of Finance (Smt. Nirmala Sitharaman) Ministry of Finance North Block New Delhi-110001	Member (ex- officio) Rule-3 (c)
04	Minister of Commerce & Industry (Shri Piyush Goyal) Ministry of Commerce & Industry Udyog Bhawan New Delhi-110011	Member (ex- officio) Rule-3 (c)
05	Prof. K. Vijay Raghavan Principal Scientific Advisor to the Government of India and Chairman, Scientific Advisory Committee to the Cabinet and Chairman, Advisory Board, CSIR Vigyan Bhawan Annexe Maulana Azad Marg New Delhi-110003	Member (ex- officio) Rule-3 (e)
06	Secretary (Dr. Renu Swarup) Department of Biotechnology Ministry of Science and Technology Block-2, 7th Floor, CGO Complex Lodhi Road New Delhi-110003	Member Rule-3 (f)
07	Secretary (Dr. Trilochan Mohapatra) Department of Agricultural Research Education (DARE) and Director General Indian Council of Agricultural Research (ICAR) Krishi Bhawan New Delhi-110001	Member Rule-3 (f)
08	Secretary (Shri Subhash Chandra) Department of Defence Production Ministry of Defence 136, South Block New Delhi-110011	Member Rule-3 (f)

Sl. No.	Name; Designation and Address	Position in CSIR Society as per CSIR Rules and Regulations
09	Secretary (Prof. Balram Bhargava) Department of Health Research Ministry of Health and Family Welfare 2nd Floor, IRCS Building 1, Red Cross Road New Delhi-110001	Member Rule-3 (f)
10	Secretary (Dr. Madhavan Nair Rajeevan) Department of Earth Science Ministry of Earth Science Prithvi Bhawan Opposite India Habitat Centre Lodhi Road New Delhi-110003	Member Rule-3 (f)
11	Secretary (Dr. Kailasavadivoo Sivan) Department of Space and Chairman, Space Commission and Indian Space Research Organisation (ISRO) Antariksh Bhawan New BEL Road Bengaluru-560231 (Karnataka)	Member Rule-3 (f)
12	Secretary (Shri R. Subrahmanyam) Department of Higher Education Ministry of Human Resource Development 127- C, Shastri Bhawan New Delhi-110001	Member Rule-3 (f)
13	Secretary (Shri K. N. Vyas) Department of Atomic Energy and Chairman, Atomic Energy Commission Anushakti Bhawan CSM Marg Mumbai-400001 (Maharashtra)	Member Rule-3 (f)
14	Chairman and Managing Director (Dr. Nalin Shinghal) Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) BHEL House Siri Fort New Delhi-110049	Member Rule-3 (f)
15	Chairman and Managing Director (Dr. Ashutosh Karnatak) Gas Authority of India Limited (GAIL) 16, Bhikaji Cama Place R. K. Puram New Delhi-110066	Member Rule-3 (f)
16	Chairman and Managing Director (Shri R. Madhavan) Hindustan Aeronautics Limited (HAL) HAL Corporate Office 15/1, Cubbon Road Bengaluru-560001 (Karnataka)	Member Rule-3 (f)

Sl. No.	Name; Designation and Address	Position in CSIR Society as per CSIR Rules and Regulations
17	Chairman and Managing Director (Shri Gurdeep Singh) National Thermal Power Corporation Limited NTPC Bhawan SCOPE Complex Institutional Area Lodhi Road New Delhi-110003	Member Rule-3 (f)
18	Prof. Bhaskar Ramamurthi Director Indian Institute of Technology (IIT), Madras IIT Post Office Chennai-600036 (Tamilnadu)	Member Rule-3 (f)
19	Shri Natarajan Chandrasekaran Chairman Tata Sons Bombay House 24, Homi Mody Street Mumbai-400001 (Maharashtra)	Member Rule-3 (f)
20	Shri Baba A. Kalyani Chairman and Managing Director Kalyani Group Bharat Forge Limited Mundhwa Pune-411036 (Maharashtra)	Member Rule-3 (f)
21	Ms. Nivruti Rai Country Head, Intel India and Vice President, Data Center Group Intel Corporation Bengaluru-560037 (Karnataka)	Member Rule-3 (f)
22	Prof. Sharmistha Banerjee Professor Department of Biochemistry School of Life Science University of Hyderabad Gachibowli Hyderabad-500046 (Telangana)	Member Rule-3 (f)
23	Dr. Rashna Bhandari Professor and Head Cell Signalling Laboratory Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics (CDFD) Inner Ring Road, Uppal Hyderabad-500039 (Telangana)	Member Rule-3 (f)
24	Prof. Ajay Kumar Sood Honorary Professor Department of Physics Indian Institute of Science Bengaluru-560012 (Karnataka)	Member Rule-3 (f)
25	Prof. Umesh Vasudeo Waghmare Professor Theoretical Sciences Unit Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR) Bengaluru-560064 (Karnataka)	Member Rule-3 (f)
26	Prof. Sudhir K. Jain Director Indian Institute of Technology (IIT) Palaj Gandhinagar-382355 (Gujrat)	Member Rule-3 (f)

Sl. No.	Name; Designation and Address	Position in CSIR Society as per CSIR Rules and Regulations
27	Ms. Chanda Nimbkar Director Animal Husbandry Division Nimbkar Agricultural Research Institute P.O. Box 23 Phaltan-415523 (Maharashtra)	Member Rule-3 (f)
28	Dr. Madhu Dikshit National Chair Translational Health Science and Technology Institute (THSTI) NCR Biotech Science Cluster 3rd Milestone Faridabad-121001 (Haryana)	Member Rule-3 (f)
29	Prof. Sanghamitra Bandyopadhyay Professor, Machine Intelligence Unit and Director Indian Statistical Institute (ISI) 203, B.T. Road Kolkata-700108 (West Bengal)	Member Rule-3 (f)
30	Shri A. S. Kiran Kumar Former Chairman Indian Space Research Organisation (ISRO) and Secretary, Department of Space S. V. Road Bandra (West) Mumbai-400050 (Maharashtra)	Member Rule-3 (f)
31	Prof. Sandip Trivedi Director Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) Homi Bhabha Road Navy Nagar Colaba Mumbai-400005 (Maharashtra)	Member Rule-3 (f)
32	Dr. Chetan Chitnis Head Malaria Parasite Biology and Vaccine Unit Institute Pasteur Rue du Docteur Roux Paris, France	Member Rule-3 (f)

The following members of the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research shall be members of the CSIR Society for a period they are members of the Governing Body in accordance with Rule- 3 (d) of the Rules & Regulations of CSIR:—

Sl. No.	Name; Designation and Address	Position in GB, CSIR as per CSIR Rules and Regulations
33	Director-General (Dr. Shekhar C. Mande) Council of Scientific & Industrial Research Anusandhan Bhawan 2, Rafi Marg New Delhi-110001	Chairman, GB, CSIR (ex-officio)
34	Secretary (Expenditure) Ministry of Finance North Block New Delhi-110001	Member-Finance (ex-officio)
35	Dr. Ram A Vishwakarma Director CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine (IIIM) Canal Road, Jammu-180001 (Jammu and Kashmir)	Member

Sl. No.	Name; Designation and Address	Position in GB, CSIR as per CSIR Rules and Regulations
36	Dr. Rakesh K. Mishra Director CSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB) Uppal Road Hyderabad-500007 (Telangana)	Member
37	Shri Dilip Shanghvi Managing Director Sun Pharmaceutical Industrial Limited SUN HOUSE, CTS No. 201- B/1 Western Express Highway, Goregaon (E) Mumbai-400063 (Maharashtra)	Member
38	Shri Dinesh K. Sarraf Chairperson Petroleum and Natural Gas Regulatory Board 1st Floor, World Trade Centre, Babur Road New Delhi-110070	Member
39	Prof. M.R. Satyanarayana Rao Professor Chromatin Biology Laboratory Molecular Biology and Genetics Unit (MBGU) Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR), Jakkur Bengaluru-560064 (Karnataka)	Member
40	Prof. Srikumar Banerjee Homi Bhabha Chair Professor Bhabha Atomic Research Centre, (BARC) and (Chancellor, Central University of Kashmir, Srinagar, J&K) Anusaktinagar Mumbai-400094 (Maharashtra)	Member
41	Dr. Arun Kumar Grover Honorary Emeritus Professor Department of Applied Sciences, Punjab Engineering College (Deemed to be University) Sector-12 Chandigarh-160012	Member
42	Secretary (Prof. Ashutosh Sharma) Department of Science & Technology Technology Bhawan New Mehrauli Road New Delhi-110016	Member
43	Secretary (Dr. G. Satheesh Reddy) Department of Defence Research and Development (DDRD) and Chairman, Defence Research and Development Organisation (DRDO) Ministry of Defence New Delhi-110001	Member

MANUEL THOMAS  
Senior Deputy Secretary